



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 8, शुक्रवार शाके 1941 अगस्त 30, 2019
Bhadra 8, Friday, Saka 1941 August 30, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur August 14, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/7688.-In exercise of powers conferrd under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal Officer Municipal Board Pushkar has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Pushkar. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal Officer.

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Governement.

कार्यालय नगर पालिका पुष्कर जिला अजमेर
प्रारूप "क"

वार्ड संख्या 1

अजमेर नागौर मुखय रोड से सीधे पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये दाये भाग पर स्थित मोहन सूर्या की जायदाद को शामिल करते हुये सीधा चलते हुये रेलवे फाटक क्रोस करने के बाद नगर पालिका सीमा तक चलकर दाये मुडकर सीधा उत्तर दिशा की ओर चलते हुये नगर पालिका सीमा तक चलने के उपरान्त दाये मुडकर आर.टी.डी.सी के पीछे वाले भाग को शामिल करते हुये नगर पालिका सीमा के सहारे सहारे सीधा पूर्व दिशा की ओर चलते हुये देवनगर रोड को क्रोस कर रामलाल धारू फौजी के मकान हरिजन बस्ती गांछा श्मशान, नाथों का श्मशान सम्मिलित करते हुए पापमोचनी की तहलटी में स्थित माताजी के मंदिर, मदन ओड के मकान को छोडते हुये एवं बुद्धराज एवं भोलाराम के मकानों को शामिल करते हुये पश्चिम दिशा की ओर सीधे चलते हुये दाये भाग को शामिल करते हुये बाये भाग में स्थित सुभाद्गा राठोडिया के मकान को छोडते हुये एवं द्राम्भू सांसी के मकान व हरिजन मंदिर को शामिल करते हुये सांसी बस्ती को छोडते हुये मुखय देवनगर रोड को क्रोस करते हुये सीधा पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये दाये भाग में स्थित पूनमचंद जी परसौया के मकान को शामिल करने के पश्चात सीधा चलते हुये पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये लुहारों के मकानों को शामिल करते हुये रामचन्द्र रैगर, चतुर्वेदी जी मकान, थावर दास सिंधी के मकान को शामिल करने के पश्चात सीधा पश्चिम दिशा की ओर चलने के बाद बाये मुडकर सीधा दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये

दाये भाग में स्थित जगदीशचौधरी का मकान, अग्रवाल साहब का मकान, लादु गुर्जर का मकान शामिल करते हुये मोहन लाल सूर्या के मकान को शामिल करने के पश्चात अजमेर नागौर मुख्य सड़क तक।

वार्ड संख्या 2

देवगगर रोड पर खडे होकर पश्चिम दिशा की ओर सीधे चलते हुये कैलाश परसोया जी के मकान को शामिल करते हुये एवं बाये भाग में स्थित मिरचूरंगरेज के मकान को शामिल करते हुये जतन जी जमादार के मकान को शामिल करते हुये पश्चिम दिशा में सीधा चलते हुये कुलदीप पाराशर एडवोकेट, सुभादगा पाराशर, सोनू सिंधी के मकान को शामिल करने के पश्चात बाये मुडकर दक्षिण दिशा की ओर सीधे चलते हुये बाये भाग में स्थित जगदीशमिश्र के मकान को शामिल करते हुये सोहन जी कुमावत की दुकान को शामिल करने के पश्चात अजमेर नागौर मुख्य रोड पर दाये मुडकर पूर्व दिशा की ओर सीधे चलते हुये देवनगर रोड चूंगी नाके से बाये मुडकर सीधा देवनगर रोड पर सीधा चलते हुये बाये में स्थित जगदीशचौधरी के कॉम्प्लेक्स को शामिल करते हुये कैलाश परसोया के मकान तक।

वार्ड संख्या 3

पुष्कर मेडता रोड एवं मेला ग्रांड रोड के जक्शन बिन्दु (रानी तिराहा के पास) से प्रारम्भ होकर गनाहेडा तिराहे की तरफ रोड के मध्य लाईन के साथ-साथ चलते हुए मेला स्टेडियम, पुराने हेलीपेड को बांयी और घेरते हुए तथा गनाहेडा चूंगी चौकी, आर.टी.डी.सी विलेज को दायी और छोडते हुए सीधे गनाहेडा रोड पर नगर पालिका सीमा तक। यहां से बायी और मुडकर नवीन खरेखडी रोड पर दक्षिण में नगर पालिका सीमा के साथ चलते हुए बाये मुडकर सीधा पूर्व दिशा की ओर चलते हुये दाये भाग में स्थित कपालेश्वर मंदिर को छोडते हुए मेला ग्राउण्ड जाने वाले कच्चे रास्ते पर सीधे चलते हुये विकास प्रदर्शनी स्थल को सम्मिलित करते हुए सीधा पूर्व दिशा की ओर चलते हुये जितेन्द्र पटवारी, शरीफ जी की टाल के हिस्से को छोडते हुये यहां से गंगा माई मंदिर की ओर चलते हुये छोगा लाल बाकोलिया के मकान को सम्मिलित करते हुये पूर्व दिशा की ओर चलते हुए नौरत जी जौंशी के मकान को शामिल करते हुये गंगा माई मंदिर की तरफ के हिस्से को छोडते हुए मालू भवन को शामिल करते हुये शिव चौक में स्थित शिव मंदिर को शामिल करते हुये यहां से सीधे उतर दिशा की ओर रैगरान मौहल्ला की गली में चलते हुए मक्शन लाल मेघवाल की तरफ के हिस्से को शामिल करते हुये स्वामी गोपाल दास जी महाराज के आश्रम को शामिल करते हुये अम्बेडकर सर्किल को शामिल करते हुये रानी तिराहा तक।

वार्ड संख्या 4

रामदेव मंदिर के सामने से शरीफ चाचा की ढाल को लेते हुए ढग्लू जी का मकान व जमांल जी के मकान को सम्मिलित करते हुए कपालेश्वर तिराहे से दाये मुडकर बाये भाग में स्थित कपालेश्वर मंदिर को शामिल करते हुये बाये मुडकर सीधा पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये नवीन खरेखडी रोड पर पालिका सीमा तक चलकर बाये मुडकर वाटर पम्प हाउस को शामिल करते हुये सीधा दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये बाये भाग में स्थित जाट धर्मशाला एवं संतोषी माता मंदिर को शामिल करने के पश्चात बाये मुडकर सीधा पूर्व दिशा की ओर चलते हुये पुंनः बाये मुडकर सीधा उत्तर दिशा की ओर चलते हुये दाये भाग में स्थित खादी ग्रामोद्योग एवं जेठमल नागौरी एवं भागचंद जी, पवन जी, मुकेश जी की जायदाद को छोडते हुये मुरली पीपली से दाये मुडकर सीधा सावित्री मार्ग पर चलते हुये बाये भाग में स्थित जायदाद राजगुरु की कोठी, दमामी मंदिर, गोपाल जी पहलवान का मंदिर एवं सिकन्दर की हवेली को शामिल करते हुये सीधा ब्रह्म चौक की ओर चलते हुये बाये भाग में स्थित जावला मंदिर, सिंधी धर्मशाला को शामिल करते हुये सीधा कपडा बाजार की ओर चलते हुये बाये भाग में स्थित बलदाउ जी का मंदिर को शामिल करने के पश्चात बाये मुडकर हनुमान गली में पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये बाये भाग में स्थित शाकदिपिये भवन, कैलाश जी दाधिच, बंजारा मंदिर, मिटर जी का मकान,

आनंद गेस्ट हाउस, खोजी दडा को शामिल करने के पश्चात दाये मुडकर सीधा उतर दिशा की ओर मुडकर बाये भाग में स्थित कुम्हार का मंदिर, बोहरा मंदिर को शामिल करते हुये द्वायीफ जी की टाल तक।

वार्ड संख्या 5

मंशातलाई में खेल मैदान को छोडते हुये राजी गुर्जरी का मकान लेते हुये हनुमान मास्टर का फार्म व गुर्जरी के मकान को सम्मिलित करते हुये श्याम की होटल व खादी ग्रामोउद्योग तक सम्पूर्ण संतोषी माता की ढाणी के मकानों को सम्मिलित करते हुये गीता आश्रम में लुहारों के मकानों को सम्मिलित करते हुये सुनिल के मकान होते हुये वेद संस्था को छोडते हुये उसके सामने की गली से कमला का मकान छोडते हुये रणछोडदास स्कूल को सम्मिलित करते हुये वापिस राजी गुर्जरी के मकान तक।

वार्ड संख्या 6

मीणा मंदिर से खेल मैदान व केसर सिंह व उसके आस-पास के मकानों को सम्मिलित करते हुये दिनेश की होटल एवं सत्यनारायण मामा का मकान, रणछोडदास स्कूल को छोडते हुये कमला का मकान व इसके पास के मकानों को सम्मिलित करते हुये वेद संस्थान को सम्मिलित करते हुये गुलाब पैलेस होटल व उसके आस-पास की बस्ती को सम्मिलित कर चामुण्डा र्मा की मुख्य सडक के दाये भाग के मकानों को शामिल करते हुए मांगी लाल रावत, गोपाल रावत के मकान को शामिल करते हुए नगर पालिका सीमा के सहारे-सहारे पूर्व दिशा की ओर चलते हुए बाये मुडकर पुष्कर सरोवर के नये हाई ब्रिज तक चलकर हाई ब्रिज से बाये मुडकर श्मशान की ओर चलते हुए परिकर्मा मार्ग पर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए होटल राधिका को छोडते हुए उतर मुखी हनुमान के जक्सन तक दुर्गा कुमावत के मकान को ले हुये उतर मुखी हनुमान जी, अरुण जी की होटल, मंशा तलाई, महिला मण्डल, रतन रावत का मकान, पुरोहित भवन, बडा गणेश जी मंदिर व रिया की हवेली से होते हुये नंद किशोर जी का मकान, महेश जी, ज्वाला जी के मकानों को लेते हुये मीणा मंदिर तक।

वार्ड संख्या 7

आर.टी.डी.सी सरोवर के मुख्य द्वार से रंगजी मंदिर को छोडते हुये सूर्य धर्मशाला को सम्मिलित कर महादेव चौक से वराह घाट चौक से नृसिंह घाट, झूलेलाल घाट, नगर पालिका को शामिल करते हुए बद्दी घाट से मुख्य सडक होते हुए गऊ घाट मस्जिद को लेते हुए कपडा बाजार होते हुए यज्ञ घाट ठण्डी कुई को सम्मिलित करते हुए ब्रह्म घाट परशुरामद्वारा तरणीघाट, तन्तुबाय वैश्य घाट, कोटा घाट, महाप्रभु जी की बैठक को सम्मिलित करते हुए परिकर्मा मार्ग पर बाये तरफ के भाग को शामिल करते हुए हाई ब्रिज पूर्व दिशा की ओर चलते हुये हाई ब्रिज से सीधा पूर्व दिशा की ओर चलते हुये बाये भाग पर स्थित मेहता जी की जायदाद को शामिल करने के पश्चात सीधा पूर्व दिशा की ओर चलते हुये बाये मुडकर महावीर झाकल, नाथी देवी के मकान एवं सीवरेज कुआं, गुरूद्वारा को शामिल करने के पश्चात बाये मुडकर सीधा पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये बाये भाग में स्थित दर्जी मंदिर, होटल ओम को शामिल करते हुये आर.टी.डी.सी सरोवर होटल तक।

वार्ड नं. 8

मालनियों के चौक में पटवारघर से प्रारम्भ होकर चढाव, बडा गवाडा मौहल्ला जाने वाले रास्ते की सडक के बांयी तरफ पटवार घर, गणपत सोनी का मकान, सीताराम चुंडावत मास्टर हीरालाल सरवाडिया, माणक चुंडावत, भूरालाल मास्टर, तुलसीराम चुंडावत, जनार्धन शर्मा, राजाराम धर्मावत, गोपाल जी आदाली, समन्दर सिंह, भवर लाल धर्मावत, मास्टर के मकान को घेरते हुए तथा ज्ञानेश्वर मास्टर सूरज मिस्त्री, हरिकाला, मूलचंद मुखिया, जयगोपाल जी, गोविन्द सिंह जी व धरीधर जी के मकानातों को दाहिनी तरफ छोडते हुए यहां से दक्षिण दिशा की ओर मुडकर उदय किशन जी के मकान को शामिल करते हुये राजाराम पुत्र श्री महावीर धर्मावत, दुर्गाशंकर उर्फ भजन जी, मोतीलाल पाराशर के मकानात ज्ञानगोपाल जी का मंदिर

बालकिशन जी बोहरा का मंदिर, लाल सिंधी के मकानातों को घेरते हुए तथा खोजी दडा, जगदीश (बीरवत), नंदलाल मास्टर, सत्यनारायण मीटर, बंजारा मंदिर, कैलाशनाथ के रघुनाथ जी के मंदिर व बलदाउ जी के मंदिर के दाहिनी तरफ छोड़ते हुए पुने पंजाब नेशनल बैंक भवन तथा पांचु जाट की दुकान तक। यहा से बायी और मुडकर सिटी रोड पर गउ घाट की तरफ चलते हुए बायी और के मकानात, राधाकिशन आदाली का मंदिर, पीपा समाज मंदिर, बासनी का मंदिर, राधे आर्ट सेन्टर को शामिल करते हुए तथा जुगासती भञ्जवन, शाही मस्जिद, गउ घाट की दायी तरफ छोड़ते हुए सीधे हलवाई गली से मालनियों के चौक की तरफ चलते हुए गली के बायी और की दुकानों एवं मकानातों को शामिल करते हुए तथा हीरालाल जी सरवाडिया की तरफ की दुकानों मकानों, शिव जी का मंदिर, प्याउ को दाहिनी तरफ हुए सीधे मालनियों के चौक तक। यहां से बायी तरफ मुडकर श्रीनिवास चौधरी की पानी की दुकान, मदन जी भोम्या की दुकानों को घेरते हुए सीधे पटवारघर तक। इससे उदयपुरा मौहल्ला, जोगियों का बास शामिल है।

वार्ड संख्या 9

त्रिलोक जी नाहर के मकान से उत्तर दिशा की ओर सीधे चलते हुये मेवाडा जी के मकान को शामिल करने के उपरान्त बाये मुडकर गंगा माई के मंदिर को सम्मिलित करते हुये द्रानि मंदिर को सम्मिलित करते हुये जगदीशतिलोनिया के मकान को सम्मिलित करते हुये बाबा रामदेव मंदिर को सम्मिलित करते हुये सीधे दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये ओम जी धर्मावत के नोहरे को सम्मिलित करते हुये गऊ घाट की ओर जाने वाले रास्ते पर पूर्व की ओर सीधे चलते हुये बाये भाग पर स्थित गिरिराज वैदगणव के मकान एवं बाबूलाल जी धर्मावत के मकान को सम्मिलित करते हुये बाये मुडकर उत्तर दिशा की ओर सीधे चलते हुये दाये भाग पर स्थित भवंर लाल जी की जायदाद को छोड़ते हुये एवं दाये मुडकर बाये भाग में स्थित कान सिंह जी की जायदाद, गोपाल जी ऐटला की जायदाद को सम्मिलित करते हुये पनघट के रास्ते पर सीधा चलकर दाऊ दयाल पाराशर जी की जायदाद को शामिल करने के उपरान्त बाये मुडकर सीधा उत्तर दिशा की ओर चलते हुये सावित्री मौहल्ले के बाये भाग में स्थित ईश्वर जी पाराशर एवं राजेन्द्र मलिक के मकान को शामिल करते हुये दाये मुडकर बाये भाग में स्थित बोदू जी के मकान एवं नरवर वालों के मकान को सम्मिलित करते हुये त्रिलोक जी नाहर के मकान तक।

वार्ड संख्या 10

मालनियों के चौक में ज्ञानेश्वर मास्टर के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर कालों के मौहल्ले की तरफ चलते हुए सडक के पश्चिम दिशा की तरफ के मकानों नौरत मंत्री, नागजी नाहर, वैष्णव धर्मशाला, भागचंद गंगवाल की दुकान व मकान को घेरते हुए तथा कुआ, कालों के मौहल्ले को दाई तरफ छोड़ते हुए नंदकिशोर अदाली का मकान से सीधा चलते हुये सावित्री मौहल्ला में उपर चढकर दाये भाग में स्थित नरवर वालों की जायदाद, बोदू जी पाराशर के मकान को छोड़ते हुये पश्चिम दिशा में सीधा चलते हुये बाये मुडकर गणपति जी भाटी के मकान को सम्मिलित करते हुये दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये मूल जी पान वाले के मकान को सम्मिलित करने के उपरान्त बाये मुडकर बडा गवाडा में पूर्व दिशा की ओर सीधे चलते हुये बाये में स्थित भागचंद जी पाराशर, सुरज नारायण जी द्रार्मा, ज्ञानेश्वर जी के मकान तक

वार्ड संख्या 11

पुष्कर मेडता रोड एवं मेला ग्राउण्ड के जक्शन बिन्दु (रानी तिराहा के पास) से प्रारम्भ होकर पुलिस थाने को सम्मिलित करते हुए केन्द्रीय विधालय को लेते हुए वी.आई.पी रोड पर घूम कर गुसाई धर्मशाला को शामिल करते हुए दाये मुडकर चिंरजी लाल टांक का मकान, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गायत्री विद्या मंदिर, पुलिस थाने के पीछवाडे से होते हुये पोस्ट ऑफिस को शामिल करते हुये बाये ओर स्थित राजेन्द्र

पारीक के मकान के हिस्से को छोड़ते हुये सीधे सब्जी मण्डी में पहुंचकर अर्जुन जी बाकोलिया के मकान को शामिल करते हुए सीधे पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए बाए मुड़कर शिव मंदिर के सामने वाले हिस्से रामपाल बाकोलिया के मकान को सम्मिलित करते हुये पूनम चंद परसौया के मकान को सम्मिलित करते हुये गली में सीधे उतर दिशा की ओर चलते हुए चुन्नी लाल के मकान तक गांछा मौहल्ला रैगर मौहल्ला में चुन्नीलाल, कामराज/भाणु रैगर के मकानों को शामिल करते हुए राधेश्याम नागौरा के मकान को शामिल करते हुये रानी तिराहा तक।

वार्ड नं. 12

मालनियों के चौक में रिखबचंद नाहर के मकान से प्रारम्भ होकर कालों के मौहल्ले की तरफ आम रास्ते पर चलते हुए ज्ञानेश्वर मास्टर, नोरत मंत्री की तरफ मकानातों को बाईं और छोड़ते हुए तथा पूनमचंद नाहर, माणकचंद नाहर की दुकाने रखीलाल हेडा, जतन लाल काला का मकान, कुआ को दाहिनी तरफ छोड़ते हुए सीधे शिवर मंदिर चौक की तरफ चलते हुए सत्यनारायण पुत्र गोपीकिशन आदाली के मकान को गैरते हुए तथा राकावत भवन, जियालाल मेवाडा के मकान, मालु भवन को बाईं और छोड़ते हुए सीधे मंत्री भवन के पास शिव मंदिर चौक तक। यहा से पूर्व की तरफ मुड़कर मंत्री भवन घेरते हुए तथा रामपाल रेगर की दुकानों को बाईं तरफ छोड़ते हुए पुलिस थाने के पीछे तक सडक के मध्य लाईन्स के साथ-साथ चलते हुए दाहिनी तरफ के मकानातों, कालों का मौहल्ला, चम्पालाल काला की दुकानों, डूंगजी खटीक का मकान को शामिल करते हुए तथा माली धर्मशाला, कलालें का देवी मंदिर, पुलिस थाने को बाईं और छोड़ते हुए सीधे खटीक मौहल्ले में डाकोतों की धर्मशाला (गायत्री बाल विद्या मंदिर) तक। यहा से दाहिनी तरफ मुड़कर सडक के मध्य लाईन के साथ सत्यनारायण मंदिर (टांक समाज), नन्दागुरु के मकान को दाहिनी तरफ छोड़ते हुए आगे दक्षिणावृत्त घुमकर सडक के साथ-साथ सिलावटों की मस्जिद होते हुए मालनियों के चौक की तरफ चलते हुए सडक के दाहिनी तरफ स्थित मकानों, ऐवरेस्ट गेस्ट हाउस, महालक्ष्मी मंदिर, सिलावटों की मस्जिद, विक्रम सिंह लोढा के मकानों को घेरते हुए तथा भागचंद चौखावत, गोपाल चौधरी श्रीमाली धर्मशाला, स्वर्णकार मंदिर, कानजी बागचेरा, घेवर चंद सुनार की दुकान व मकान, प्याउ को बाईं तरफ छोड़ते हुए सिधे रिखबचंद नाहर के मकान तक।

वार्ड संख्या 13

गऊ घाट के सामने हलवाई गली में हीरालाल जी सरवाडिया की दुकान से प्रारम्भ होकर सीधे मालनियों के चौक की तरफ चलते हुए दाहिनी तरफ की दुकानों, मकानों, शिवजी का मंदिर, बालजी मंत्री की दुकान, प्याउ को घेरते हुए तथज्ञा अग्रवाल नमकीन भण्डार, उदयपुरा मौहल्ला, श्रीनिवास चौधरी की पान की दुकान को बाईं और छोड़ते हुए सीधे चौक तक। यहा से महालक्ष्मीजी मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर चलते हुए दाहिनी तरफ घेवर जी सुनार की दुकान व मकान, पट्टीयों की पोल, गिरधारी धर्मावत का मकान, पिनारों की गली, कानजी बागरिया का मकान, नाथू पत्रकार का मकान, श्रीमाली समाज धर्मशाला, गोपाल चौधरी के मकान, घेरते हुए बट्टी नारायण मंदिर से सीधे उतर दिशा की ओर चलते हुए दाये भाग पर स्थित अम्बालाल खटीक के मकान को शामिल करते हुए दाये मुड़कर खटीक मंदिर, कॉपरेटिव बैंक, गोड आश्रम को शामिल करते हुए दाये मुड़कर वी.आई.पी रोड पर बृजवासी को शामिल करते हुए होटल रेड रोज को शामिल कर बहारी कुमावत को शामिल करते हुए बिहारी कुमावत के मकान से दाये मुड़कर पवन राजगुरु के मकान को शामिल करते हुए पुखराज कुमावत के मकान को छोड़ते हुए सीधे पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए राजगुरु गेस्ट हाउस को शामिल करते हुए गोपाल मालू के मकान को शामिल कर यहां से बाए मुड़कर ब्रह्म नारायण राजगुरु, संजय बंसल, त्रिलोक खत्री, ताराचंद जीनगर के मकान व गुरुचरण सरदार के मकान को छोड़ते हुये व बाए भाग को छोड़ते हुए दाये भाग पर स्थित मयुर गेस्ट हाउस पिनारों की गली, सत्यनारायण जी कम्पाउण्डर के मकान व

न्यू स्टेप प्ले को सम्मिलित करते हुये होली का चौक से सीधे बट्टी घाट की ओर चलते हुए दाये भाग पर स्थित मरूधर केसरी को शामिल करते हुए मरूधर केसरी के मोड से मुख्य बाजार पर दाये मुडते हुए सीधे गऊ घाट की ओर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए गुलर मंदिर, सत्यनारायण नागौरी के मकान को सम्मिलित करते हुए हीरालाल सरवाडिया की दुकान तक।

वार्ड संख्या 14

ब्रह्म नारायण राजगुरु के मकान से होलीका चौक के बाह्य भाग में स्थित न्यू स्टेप प्ले स्कूल को छोडते हुए बट्टी घाट की तरफ चलते हुए बाये भाग को शामिल करते हुये एवं दाये भाग में मरूधर केसरी को छोडते हुये एवं रामलक्ष्मण मंदिर से बाये मुडकर सीधा पूर्व दिशा की ओर चलते हुये बाये भाग में स्थित पायल गेस्ट हाउस, मंत्री जी के मकान एवं नटराज गेस्ट हाउस को शामिल करते हुये दाये भाग में स्थित नगर पालिका, नृसिंह घाट एवं वराह घाट को छोडते हुये वराह चौक होते हुए पुराना रंगजी मंदिर से माली मंदिर पूरन खण्ड, पाण्डे नर्सरी को सम्मिलित करते हुए हायर सैकेन्डरी स्कूल को छोडते हुए मुख्य सडक पर वी.आई.पी रोड पर मुडते हुए माली मौहल्ला शामिल करते हुए बाये भाग को शामिल करते हुए वी.आई.पी रोड से दाये मुडकर बिहारी कुमावत के मकान को छोडते हुए गुरुचरण सरदार के मकान को शामिल करते हुये ताराचंद जीनगर, त्रिलोक खत्री, संजय बंसल, ब्रह्म नारायण राजगुरु के मकान को शामिल करते हुये तक।

वार्ड संख्या 15

वराह घाट चौक के मध्य से प्रारम्भ होकर वराह मंदिर की तरफ जाने वाली सडक के लाईन के साथ-साथ चलते हुए पोस्ट ऑफिस डी.के.मकान से लुहार पंचायत मंदिर से शिवजी के मंदिर को घेरते हुए आचार्य के मकान से सीधे यादव धर्मशाला से पंच गोड धर्मशाला को घेरते हुए मोहन बगीची, यहा से बायीं ओर मुडकर पुष्कर-मेडता रोड के मध्य लाईन के साथ-साथ चलते हुए पूरन कुण्ड तक यहां से पुनः बायीं ओर मुडकर सीधे पुराना रंगजी में मंदिर के सामने से होते हुए वराह घाट चौक की तरफ जाने वाली सडक के मध्य लाईन के साथ-साथ वराह घाट की ओर चलते हुए पूरन खण्ड यादव धर्मशाला, पुखराज दुबे, राधेजी हलवाई की दुकान को बायीं ओर घेरते हुए तथा पाण्डे नर्सरी, माली मंदिर, पुराना रंगजी मंदिर, नटराज गेस्ट हाउस को दांयीं ओर छोडे हुए सीधे वराह घाट चौक प्रारम्भ बिन्दु तक।

वार्ड संख्या 16

वराह घाट चौक के मध्य से प्रारम्भ होकर पोस्ट ऑफिस के सामने से वराह मंदिर की तरफ जाने वाली सडक के मध्य लाईन के साथ-साथ चलते हुए नृसिंह पाठक, पंडा किशन महर्षि, वराह मंदिर के दांयीं ओर घेरते हुए मैलू गवाडी से चन्द्रशेखर सातोरिया का मकान से गोपाल सातोरिया की गली से महावीर पत्रकार के मकान को घेरते हुए श्याम सुन्दर आर्चय का मकान से भाटी जी के मकान को घेरते हुए अखिल भारतीय पंच गौड धर्मशाला के सामने होते हुए वराह मंदिर को घेरते हुए पुष्कर मेडता रोड तक यहां से अजमेर की तरफ चलते हुए दाये मुडकर सीधा दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये दाये भाग में स्थित होटल नारायण पैलेस को शामिल करते हुये नारू सिंधी के मकान को शामिल करने के पश्चात दाये मुडकर सीधा पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये बाये भाग में स्थित दिलीप बाबू की जायदाद को बाये छोडते हुये एवं दाये भाग में स्थित होटल रेम्बो को शामिल करते हुये श्रीया कन्या पाठशाला, एस.बी.बी.जे लालचंद का मकान वराह घाट की तरफ चलते हुए श्रीया कन्या पाठशाला, एस.बी.बी.जे लालचंद का मकान एवं दुकानें ब्रह्मा पुष्कर सेवा संघ को दायीं ओर घेरते हुए तथा ग्वालियर घाट, गोपाल चाय वाले की दुकान, वराह घाट को बांयीं तरफ छोडते हुए सीधे प्रारम्भ बिन्दु तक।

वार्ड संख्या 17

नायक कॉलोनी के पास नया रंगजी मंदिर के पिछले दरवाजे के पास स्थित संस्कृत कॉलेज को बाये छोड़ते हुये एवं दाये भाग पर स्थित लक्ष्मी नारायण जी मास्टर के मकान, रामसिंह खंगारोत, देवीलाल नायक के मकान को शामिल करने के पश्चात बाये मुड़कर सीधा पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये दाये भाग में स्थित नायक मंदिर, भारद्वाज आश्रम, गौतम आश्रम को शामिल करने के पश्चात दाये मुड़कर उतर दिशा की ओर सीधा चलते हुये होटल नारायण पैलेस को बाये छोड़ते हुये अजमेर नागौर मुख्य रोड तक चलने के पश्चात अजमेर नागौर रोड पर दाये मुड़कर अजमेर रोड पर सीधा चलते हुये दाये भाग में स्थित जाना बाई आश्रम, झंवर जी का मकान को शामिल करने के पश्चात दाये मुड़कर संस्कृत स्कूल को शामिल करते हुये सीधा पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये सम्पूर्ण नायक कॉलोनी को शामिल करने के उपरान्त संस्कृत कॉलेज तक (अजमेर नागौर मुख्य सडक से दाये मुड़ने के उपरान्त संस्कृत कॉलेज तक की सीमा को काल्पनिक माना गया है)

वार्ड संख्या 18

गांधीमूर्ति तिराहा से प्रारम्भ होकर पुष्कर में अजमेर बस स्टेण्ड, नया रंगजी मंदिर होते हुये महादेव चौक से अटमटेश्वर मंदिर को सम्मिलित करते हुए नायक कॉलोनी की ओर गौतम भारद्वाज आश्रम को छोड़ते हुए दाये भाग में स्थित गुप्ता जी के मकान को शामिल करने के उपरान्त दाये मुड़कर सीधा पूर्व दिशा की ओर चलते हुये संस्कृत कॉलेज तक चलने के उपरान्त (बाये मुड़कर अजमेर नागौर मुख्य सडक तक के दाये भाग में स्थित रंगजी के मंदिर की जायदाद को शामिल करते हुये एवं बाये भाग में स्थित सम्पूर्ण नायक कॉलोनी को छोड़ते हुये) उक्त भाग की सीमा को काल्पनिक माना गया है। अजमेर नागौर मुख्य सडक पर बाये मुड़कर सीधा नागौर रोड पर चलते हुये दाये भाग में स्थित राजेन्द्र जैन के मकान, उपखण्ड कार्यालय को शामिल करते हुये नवीन बस स्टेण्ड तक चलकर दाये मुड़कर उपखण्ड कार्यालय के पीछे वाली रोड पर सीधा दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये पत्रकार कॉलोनी को बाये छोड़ते हुये एवं दाये भाग में स्थित मांगी लाल चौधरी की फैक्ट्री, सरदार जी की जायदाद, दाधिच भवन, द्राक्ति सिंह द्रोखावत, रामधाम व श्रीराम आश्रम को शामिल करते हुये एवं बजरंग कॉलेनी को बाये छोड़ते हुये सीधा दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये दाये मुड़कर अजमेर नागौर मुख्य सडक तक चलकर पुनः दाये मुड़कर गांधी जी की मूर्ति तक।

वार्ड संख्या 19

गायत्री शक्ति पीठ से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये हाईब्रिज तक चलते हुये बाये भाग को शामिल करते हुये एवं महावीर झांकल के मकान को दाये छोड़ते हुये हाईब्रिज से पहले फीडर की ओर बाये मुड़कर दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये पुद्गकर सरोवर के फीडर को दाये छोड़ते हुये दक्षिण दिशा में नगर पालिका सीमा तक चलकर बाये मुड़कर नगर पालिका सीमा के सहारे सहारे चलते हुए भैरू नेता, किशोरी लाल भाटी के मकान को शामिल करते हुए सीधा चलते हुये पुष्कर नाला क्षेत्र को दाये छोड़ते हुए सिधे पूर्व दिशा की ओर चलते हुए मूलचंद जी सिंगोदिया के मकान, बालमुकुन्द आश्रम, पिकाक होटल को घेरते हुए जमनीकुण्ड की तरफ जाने वाली सडक पर दाये मुड़कर होटल मास्टर पेराडाईज को शामिल करने के उपरान्त पंचकुण्ड रोड से बाये मुड़कर सीधा पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये बंगाली बाबा आश्रम को शामिल करते हुये होटल गोयल इन, क्रिशपैलेस को शामिल करते हुये राजा साईकिल वालों की धर्मशाला तक।

वार्ड संख्या 20

अजमेर नागौर रोड स्थित नगर पालिका सीमा से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये कपिल कुण्ड को शामिल करते हुये सन्यास आश्रम एवं गोदूमल आश्रम को शामिल करते हुये द्रार्मा गेस्ट हाउस से सीधा पश्चिम दिशा

की ओर चलते हुये बाये भाग में स्थित गांधी आश्रम, बेरवा आश्रम को शामिल करते हुये तुलसीराम माली की दुकान तक चलकर बाये मुडकर पंचकुण्ड रोड पर सीधा पूर्व दिशा की ओर चलते हुये होटल चन्द्रा पैलेस, पुद्गकर विलास एवं मास्टर पैरोडाईज को दाये छोडते हुये नगर पालिका सीमा तक।

वार्ड संख्या 21

मधुसुधन की जायदाद मालू एक्सपोर्ट से अजमेर नागौर मुख्य सडक पर अजमेर रोड चुंगी नाके की तरफ चलते हुए सम्पूर्ण आई.डी.एस.एम.टी कॉलोनी को शामिल करते हुए ब्रह्म द्वार की और चलते हुए नगर पालिका सीमा तक चलकर बाये मुडकर नगर पालिका सीमा के सहारे-सहारे भट्टवाय लिंक रोड पर पहुंचकर जैन कॉलोनी को छोडते हुए जगत सिंह पैलेस को शामिल करते हुए राजपुरोहित भवन को शामिल करते हुए मालू एक्सपोर्ट तक।

वार्ड संख्या 22

गणेशी लाल कुमावत के मकान से अजमेर नागौर मुख्य सडक पर पहुंचकर सीधे अजमेर की और चलते हुए मुख्य सडक के बाये भाग को शामिल करते हुए अर्थात आर्चाय धर्मशाला, बांगड स्कूल, पुष्कर धाम विश्राम स्थली, नव निर्मित बस स्टेण्ड को शामिल करते हुए मुख्य सडक से बाये मुडकर पुष्कर तहसील परिसर को छोडते हुए तहसील परिसर को छोडते हुए तहसील के पीछे वाली सडक से होटल तीर्थ पैलेस को छोडते हुए पत्रकार कॉलोनी को शामिल करते हुए दाधिच भवन को छोडते हुए बजरंग कॉलोनी को शामिल करते हुए दाये मुडकर श्रीराम भवन को छोडते हुए अजमेर नागौर मुख्य सडक पर पहुंचकर अजमेर की और चलते हुए बीकानेर धर्मशाला राज गार्डन को शामिल करते हुए बाये मुडकर टाक धर्मशाला को शामिल करते हुए राजपुरोहितों भवन को छोडते हुए सीधे उतर दिशा की और चलते हुए होटल जगत सिंह पैलेस को छोडकर दाये मुडकर भट्टवाय गणेश लिंक रोड तक के बाये भाग को शामिल करते हुए जैन कॉलोनी, गणेश कॉलोनी, गणपति नगर को शामिल करते हुए भट्टवाय गणेश मंदिर को शामिल करते हुए श्रीजी कॉलोनी को शामिल करते हुए जयपुर बाईपास पर सीधे दक्षिण की और चलते हुए मुख्य सडक के बाये भाग को शामिल करते हुए टेलीफोन, एक्सचेंज से दाये मुडकर केशा सिंधी के मकान को शामिल करते हुए गणेशी लाल कुमावत के मकान तक। केशव नगर के दाये भाग को छोडते हुए।

वार्ड संख्या 23

सिलावटों के कब्रस्तान की गली में भाईजान का मकान लेते हुये रज्जाक की होटल को शामिल करते हुये अजमेर नागौर रोड के मुख्य सडक की और चलते हुए गली के बाये भाग को शामिल करते हुए अजमेर नागौर मुख्य सडक पर अजमेर की और चलते हुये श्यामा बाघ हॉस्पिटल, हाई स्कूल शामिल करते हुए मुख्य सडक से बाई और मुडकर अर्थात हाई स्कूल के पिछवाडे से केशव नगर में उपर पूर्व की और मुडकर पूनमचंद जी माली के गेस्ट हाउस को शामिल करते हुए गणेशी लाल कुमावत के मकान को छोडते हुए सिधे पूर्व की और चलते हुए जयपुर बाईपास मुख्य सडक तक के बाये भाग को शामिल करते हुए जयपुर बाईपास मुख्य सडक पर सीधे भट्टवाय गणेश की और चलते हुए अजमेर लिंक रोड तक के बाये भाग अर्थात भाणु रैगर की जायदाद शामिल करते हुए सीधा पूर्व दिशा की ओर जयपुर बाईपास पर चलते हुये बाये मुडकर नगर पालिका सीमा के सहारे-सहारे मध्य पुद्गकर (आबादी रहित) को शामिल करते हुये पुनः जयपुर बाईपास मुख्य मार्ग पर आकर बाये मुडकर पुनः सीधा पूर्व दिशा की ओर चलते हुये दाये भाग में स्थित सुधाबाय कुण्ड (आबादी रहित) को शामिल करने के उपरान्त पुनः जयपुर बाईपास मुख्य रोड पर आकर पुनः सीधा पूर्व दिशा की ओर चलते हुये रेल्वे पुल को क्रोस करने के उपरान्त बूढा पुद्गकर सरोवर (आबादी रहित) को शामिल करते हुये पुनः जयपुर

बाईपास मुख्य मार्ग पर आकर पुद्गकर द्राहर की ओर चलते हुये भट्टवाय गणेशजी तक आकर दाये मुडकर सीधा चलते हुये दाये भाग में स्थित वैष्णव धर्मशाला, पारिक कॉलोनी, केशव नगर, श्यामा बाघ होस्पिटल को शामिल करते सिलावटों के कब्रिस्तान तक।

वार्ड संख्या 24

अजमेर नागौर मुख्य सडक से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये बाये भाग में स्थित मस्जिद को शामिल करते हुये कमल गेस्ट हाउस, पटवारी जी के मकान, मालपानी जी के मकान, श्री पैलेस, गुलाब ठेकेदार के मकान को शामिल करने के पश्चात बाये मुडकर सीधे पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये इसके पश्चात दाये मुडकर दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये बाये भाग में स्थित गोपाल जी पाराशर, मोहन जी पाराशर के मकान को शामिल करने के पश्चात बाये मुडकर फ्रेण्डस कॉलोनी में सीधा पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये आगे चलकर दाये मुडकर बाये भाग में स्थित पवन राकावत जी के प्लॉट, ओम जी राकावत के मकान को शामिल करते हुये अजय सिसोदिया जी के मकान को छोडते हुये देवनगर मुख्य रोड तक चलकर बाये मुडकर सुभाद्गा जी राठौटिया के मकान को सम्मिलित करते हुये एवं दाये भाग में स्थित जगदीशचौधरी के कॉम्प्लेक्स को छोडते हुये बाई तरफ के भाग धर्मप्रकाश जी का मकान राजकीय चिकित्सालय, पुलिस क्वार्टर से मस्जिद तक।

वार्ड संख्या 25

पाप मोचनी की तलहटी में स्थित माता जी के मंदिर से नगर पालिका सीमा के सहारे सहारे पूर्व दिशा की ओर चलते हुये मुस्लिम कब्रिस्तान होते हुये दाये मुडकर दक्षिण दिशा की ओर सीधा चलते हुये अजमेर नागौर मुख्य सडक तक दाये मुडकर सीधा पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये दाये भाग में स्थित मरुधर केसरी की जायदाद, बसंती लाल जी की जायदाद एवं मारवाड बस स्टेण्ड को शामिल करने के पश्चात दाये मुडकर सीधा उत्तर दिशा की ओर चलते हुये बाये भाग में स्थित मस्जिद, कमल गेस्ट हाउस, श्रीपैलेस, गुलाब जी ठेकेदार के मकान को छोडने के पश्चात बाये मुडकर सीधा चलने के बाद पुनः दाये मुडकर बाये भाग में स्थित गोपाल जी के मकान, मोहन जी पाराशर के मकान को छोडने के बाद पुनः बाये मुडकर सीधा पश्चिम दिशा की ओर चलने के बाद दाये मुडकर पवन राकावत के प्लॉट को बाये छोडते हुये सीधा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये दाये भाग में स्थित अजय सिसोदिया के मकान को शामिल करने के उपरान्त दाये मुडकर उत्तर पूर्व में पाप मोचनी तहलटी की ओर चलकर दाये भाग में स्थित रामेश्वर जी के मकान आदि के मकानों को शामिल करते हुये नगर पालिका सीमा तक।

अधिशाषी अधिकारी

नगर पालिका पुष्कर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।